

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2516]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2516]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3033(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के दाहोद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के 179.300 कि.मी. से 215.900 कि.मी. तक के भू-खण्ड (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, डिप्टी कलेक्टर, प्रांत दाहोद, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के कि.मी. 179.300 से कि.मी. 215.900 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश बार्डर) सेक्शन तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण							
क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक/सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दाहोद	(1) दाहोद	(1) दाहोद	177/1	निजी	कृषि	0-14-60
				504/p	निजी	कृषि गैर कृषि	0-05-06
			(3) रामपुरा	1/5/D/2	निजी	गैर कृषि	0-01-17
				1/5/A/6	निजी	कृषि	0-04-99
			(3) राबडाल	65	निजी	कृषि	0-05-06
			(4) नसीरपुर	12	निजी	कृषि	0-00-20
				13/2	निजी	कृषि	0-03-04

[फा. सं. भारराप्रा/गोधरा/रा.रा.-59/दाहोद/2012]

माया प्रकाश, उप-सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2012

**S.O. 3033(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four- laning , etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 59, in the stretch of land from Km 179.300 to Km 215.900 (Ahmedabad - Gujarat/MP Border Section) in District of Dahod the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector, Prant Dahod, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.179.300 to Km 215.900 ( Ahmedabad - Gujarat/MP Border ) on the National Highway No. 59 in the State of Gujarat.							
Serial number	Name of the district	Name of taluka	Name of village	Block / Survey number	Type of land	Nature of land	Area ( in hectare )
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dahod	Dahod	1) Dahod	177/1	Private	Agriculture	0-14-60
				504/p	Private	Agriculture & Non- Agriculture	0-05-06
			2) Rampura	1/5/D/2	Private	Non- Agriculture	0-01-17
				1/5/A/6	Private	Agriculture	0-04-99
			3) Rabdal	65	Private	Agriculture	0-05-06
			4) Nasirpur	12	Private	Agriculture	0-00-20
				13/2	Private	Agriculture	0-03-04

[F. No. NHAI/Godhra/NH-59/Dahod/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.